

प्रेस नोट थाना रामगढ़ताल दिनांक 22-07-2021

03 नफर शातिर चोर गिरफ्तार व इनके कब्जे से 01 अदद इनोवा कार व 01 अदद देशी तमंचा 303 बोर बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद गोरखपुर द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी कैण्ट के कुशल मार्गदर्शन में व प्रभारी निरीक्षक जगत नारायण सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 अक्षय कुमार मिश्रा मय हमराह पुलिस टीम को लगाया गया था। दिनांक 22.07.2021 को चौकी फलमण्डी पर जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि न्यू शिवपुरी कालोनी महेवा में हुयी इनोवा गाडी की चोरी से सम्बन्धित अभियुक्त चोरी की गाडी इनोवा लेकर फोरलेन निकट आहार होटल के पास तीन व्यक्ति खड़े है। इस सूचना पर विश्वास कर उ0नि0 अक्षय कुमार मिश्रा मय हमराहीगण के साथ फोरलेन निकट आहार होटल के पास पहुचे तो मुखबिर खास उनकी तरफ इशारा करके हट बढ़ गया कि उ0नि0 मय हमराहीगण के साथ पहुचकर गाडी को घेर लिये। पुलिस टीम को देखकर उक्त तीनों व्यक्ति सकपका कर भागने का प्रयास किये जिनको पुलिस टीम द्वारा घेरघार कर पकड़ लिया गया। बारी -बारी नाम पता पूछा गया तो पहले ने अपना नाम प्रमोद कुमार उर्फ पिन्टू यादव पुत्र श्री लालचन्द यादव निवासी बसई थाना करछना जनपद प्रयागराज, दूसरे ने अपना नाम सुनील चौहान पुत्र श्री कल्लू चौहान निवासी पैडलेगंज इन्द्रानगर थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर व तीसरे ने अपना नाम रामभजन निषाद पुत्र स्व0 राम प्रीत निषाद निवासी मंझरिया बिस्टौल थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर बताया। इनके कब्जे से चोरी की एक अदद इनोवा कार वाहन नं0- UP51 L 8687 बरामद हुआ जिसके संबंध में वादिनी श्रीमती गुन्जन देवी पत्नी पप्पू कुमार निवासिनी डेमसा थाना गगहा, गोरखपुर द्वारा दिनांक 18.07.2021 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0291/2021 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत कराया गया था। प्रमोद कुमार उर्फ पिन्टू के कब्जे से एक अदद देशी तमंचा 303 बोर बरामद हुआ। पकड़े गये व्यक्तियों को जुर्म से अवगत कराते हुए 02.40 बजे गिरफ्तार किया गया जिसके संबंध में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

1. प्रमोद कुमार उर्फ पिन्टू यादव पुत्र श्री लालचन्द यादव निवासी बसई थाना करछना जनपद प्रयागराज
2. सुनील चौहान पुत्र श्री कल्लू चौहान निवासी पैडलेगंज इन्द्रानगर थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
3. रामभजन निषाद पुत्र स्व0 राम प्रीत निषाद निवासी मंझरिया बिस्टौल थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर

अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 0291/2021 धारा 379/411 भादवि थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर।
2. मु0अ0सं0 0297/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर।

बरामदगी का विवरण

1. एक अदद इनोवा कार वाहन नं0- UP51 L 8687 संबंधित मु0अ0सं0- 0291/2021 धारा 379/411 भादवि थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
2. एक अदद देशी तमंचा 303 बोर

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम

1. प्रभारी निरीक्षक श्री जगत नारायण सिंह थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर।
2. उ0नि0 श्री अक्षय कुमार मिश्रा चौकी प्रभारी फलमण्डी थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर।
3. उ0नि0 श्री विशाल कुमार उपाध्याय चौकी प्रभारी आजाद चौक थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर।
4. उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र जैन थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर।
5. हे0का0 धीरेन्द्र सिंह यादव थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर।
6. का0 धनन्जय कुमार थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर।
7. का0 प्रवीण कुमार पाण्डेय थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर।
8. का0 संजय कुमार थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर।